

अध्याय - 5 | व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ

QUIZ PART-05

1. पारंपरिक व्यवसाय में वस्तु का निर्माण कैसा होता है?
 - A. आसान
 - B. अत्यधिक सरल
 - C. कठिन
 - D. बिना किसी प्रक्रिया के(C)
- व्याख्या:** निर्माण प्रक्रिया पारंपरिक व्यवसाय में कठिन मानी जाती है, जबकि ई-व्यवसाय में यह सरल होती है।
2. ई-व्यवसाय में भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता कैसी होती है?
 - A. बहुत अधिक
 - B. कमी-कमी
 - C. आवश्यक नहीं
 - D. अनिवार्य(C)
- व्याख्या:** ई-व्यवसाय डिजिटल माध्यमों पर आधारित होने से भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती।
3. पारंपरिक व्यवसाय में उत्पादन, भंडारण एवं विपणन के लिए क्या आवश्यक होता है?
 - A. कम निवेश
 - B. कोई संसाधन नहीं
 - C. अधिक धन लगाना पड़ता है
 - D. केवल इंटरनेट(C)
- व्याख्या:** पारंपरिक व्यवसाय में बुनियादी ढाँचा, भंडारण और विपणन पर अधिक लागत आती है।
4. ई-व्यवसाय में काम करने के लिए कर्मचारियों को किस प्रकार की दक्षता की आवश्यकता होती है?
 - A. केवल शारीरिक क्षमता
 - B. इंटरनेट और कंप्यूटर की जानकारी
 - C. कृषि संबंधी जानकारी
 - D. केवल बोलने की क्षमता(B)
- व्याख्या:** ई-व्यवसाय में तकनीकी दक्षता अनिवार्य होती है क्योंकि सभी कार्य ऑनलाइन संचालित होते हैं।
5. पारंपरिक व्यवसाय में आदेश श्रृंखला कैसी होती है?
 - A. बहुत छोटी
 - B. प्रत्यक्ष और सरल
 - C. लंबी और ऊर्ध्वाधर
 - D. बिना किसी मार्ग के(C)
- व्याख्या:** पारंपरिक व्यवसाय में आदेश देने और पालन करने की प्रक्रिया लंबी व ऊर्ध्वाधर होती है।

6. ई-व्यवसाय में आदेश और संचार प्रणाली कैसी होती है?
 - A. जटिल
 - B. लंबी
 - C. सरल और स्तरहीन
 - D. केवल लिखित(C)
- व्याख्या:** ई-व्यवसाय में ऑनलाइन संचार होने से आदेश प्रणाली सरल और तेज़ होती है।
7. पारंपरिक व्यवसाय में नियमों का प्रबंधन कैसा होता है?
 - A. छोटा
 - B. बहुत बड़ा और जटिल
 - C. नहीं होता
 - D. केवल ग्राहकों के लिए(B)
- व्याख्या:** पारंपरिक व्यवसाय में प्रक्रियाएँ लंबी होने के कारण नियमों का प्रबंधन भी बड़ा और जटिल होता है।
8. ई-व्यवसाय में नियम प्रबंधन कैसा होता है?
 - A. जटिल
 - B. लंबे समय वाला
 - C. छोटा और सरल
 - D. अस्पष्ट(C)
- व्याख्या:** ई-व्यवसाय में डिजिटल प्रक्रियाओं के कारण नियमों का प्रबंधन काफी सरल होता है।
9. पारंपरिक व्यवसाय में ग्राहक सेवा कैसी मानी जाती है?
 - A. बहुत सरल
 - B. सीधे संपर्क पर आधारित
 - C. पूरी तरह स्वचालित
 - D. केवल ऑनलाइन(B)
- व्याख्या:** पारंपरिक व्यवसाय में ग्राहक सेवा प्रत्यक्ष संपर्क पर आधारित होती है।
10. ई-व्यवसाय में वैश्विकरण की स्थिति कैसी है?
 - A. सीमित
 - B. बहुत कम
 - C. अत्यधिक
 - D. केवल स्थानीय(C)
- व्याख्या:** ई-व्यवसाय डिजिटल माध्यमों के कारण वैश्विक स्तर पर संचालित किया जा सकता है, इसलिए इसका विस्तार अत्यधिक तेज़ है।